

सं. 7 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा दी गई स्थायी सुविधाएं

(करोड़ रुपए)

सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार को	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (1)		सामान्य पुनर्वित्त (2)		विशेष चलनिधि समर्थन (3)		कुल पुनर्वित्त (4)	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1996-97	6,654.40	559.97	—	—			6,654.40	559.97
1997-98	2,402.96	394.52	1,115.02	0.11			3,517.98	394.63
1998-99	7,269.27	2,616.57	1,115.02	19.23	3,235.02	258.00	11,619.31	2,893.80
मार्च 1999	7,269.27	2,616.57	1,115.02	19.23	3,235.02	258.00	11,619.31	2,893.80
अप्रैल 1999	8,638.29	5,164.76	1,115.02	56.31	—	—	9,753.31	5,221.07

सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार को	निर्यात ऋण पुनर्वित्त (1)						अन्य @						कुल स्थायी सुविधा	
	सामान्य *		बैंक स्टॉप **		कुल ***		सामान्य *		बैंक स्टॉप **		कुल			
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6 =(2+4)	7 =(3+5)	8	9	10	11	12 =(8+10)	13 =(9+11)	14 =(6+12)	15 =(7+13)
2001-02	6,060.29	3,144.11	3,025.60	49.83	9,085.89	3,193.94	837.62	422.35	218.65	—	1,056.27	422.35	10,142.16	3,616.29
2002-03	2,524.13	61.51	2,524.13	23.00	5,048.26	84.51	399.66	—	—	—	399.66	—	5,447.92	84.51
2003-04	1,553.25	—	3,111.17	—	4,664.42	—	399.66	—	—	—	399.66	—	5,064.08	—
2004-05	—	—	—	—	4,912.13	50.00	399.66	—	—	—	399.66	—	5,311.79	50.00
2005-06	—	—	—	—	6,050.63	1,567.68	—	—	—	—	—	—	6,050.63	1,567.68
2006-07	—	—	—	—	8,110.33	4,984.94	—	—	—	—	—	—	8,110.33	4,984.94
2007-08	—	—	—	—	9,103.46	2,825.00	—	—	—	—	—	—	9,103.46	2,825.00
सितं. 2007	—	—	—	—	7,505.46	45.00	—	—	—	—	—	—	7,505.46	45.00
दिसं. 2007	—	—	—	—	7,818.76	779.00	—	—	—	—	—	—	7,818.76	779.00
मार्च 2008	—	—	—	—	9,103.46	2,825.00	—	—	—	—	—	—	9,103.46	2,825.00
जून 2008	—	—	—	—	9,052.03	1,132.14	—	—	—	—	—	—	9,052.03	1,132.14
मार्च 2008	—	—	—	—	9,103.46	2,825.00	—	—	—	—	—	—	9,103.46	2,825.00
अप्रै. 2008	—	—	—	—	9,509.23	474.00	—	—	—	—	—	—	9,509.23	474.00
मई 2008	—	—	—	—	9,264.62	166.00	—	—	—	—	—	—	9,264.62	166.00
जून 2008	—	—	—	—	9,052.03	1,132.14	—	—	—	—	—	—	9,052.03	1,132.14
जुला. 2008	—	—	—	—	9,763.13	3,129.09	—	—	—	—	—	—	9,763.13	3,129.09
अग. 2008	—	—	—	—	9,449.95	976.58	—	—	—	—	—	—	9,449.95	976.58
सितं. 2008	—	—	—	—	9,434.35	4,481.44	—	—	—	—	—	—	9,434.35	4,481.44
अक्टू. 2008	—	—	—	—	9,653.48	91.00	—	—	—	—	—	—	9,653.48	91.00
नव. 2008	—	—	—	—	34,740.28	2,697.63	—	—	—	—	—	—	34,740.28	2,697.63
दिसं. 2008	—	—	—	—	35,991.95	5,330.51	—	—	—	—	—	—	35,991.95	5,330.51
जन. 2009	—	—	—	—	37,367.21	1,037.00	—	—	—	—	—	—	37,367.00	1,037.00
फर. 2009	—	—	—	—	35,173.13	1,531.59	—	—	—	—	—	—	35,173.13	1,531.59
मार्च 2009	—	—	—	—	34,951.79	3,106.62	—	—	—	—	—	—	34,951.79	3,106.62

@ : 'अन्य' में संपाशिकीकृत उधार सुविधा (सीएलएफ) (5 अक्टूबर 2002 से पूर्णतः समाप्त)/अतिरिक्त सीएलएफ (5 जून 2000 से समाप्त) आदि शामिल हैं।

* : सामान्य सीमा : 16 नवंबर 2002 से प्रभावी कुल सीमा का 1/2 भाग, 27 दिसंबर 2003 से प्रभावी कुल सीमा का 1/3 भाग।

** : बैंक स्टॉप सीमा : 16 नवंबर 2002 से प्रभावी कुल सीमा का 1/2 भाग, 27 दिसंबर 2003 से प्रभावी कुल सीमा का 2/3 भाग।

*** : सामान्य सुविधा और बैंक स्टॉप सुविधा के अंतर्गत कुल सीमा का विलय 29 मार्च 2004 से प्रभावी एकल सुविधा में किया गया।

'सारणी संबंधी टिप्पणी' देखें।